

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2016 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण।

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गए।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवशेष लेखों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया गया।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के संबध में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से संबंधित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति की बैठकें आयोजित कराकर निगमों/उपक्रमों के लम्बित आडिट प्रस्तारों का निस्तारण कराया गया।